



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

13 आश्विन 1934 (श0)
(सं0 पटना 534) पटना, शुक्रवार, 5 अक्टूबर 2012

कार्यालय निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना

आदेश
01 अक्टूबर 2012

सं0 07 / (विधि-3) शीर्ष स. सं.-01 / 08-5204—चूँकि अधोहस्ताक्षरी के आदेश ज्ञापांक 4422 दिनांक 27.08. 2012 द्वारा बिहार स्टेट हाउसिंग को-ऑपरेटिव फेडरेशन लि., पटना (निबंधन संख्या- 03 / 1969) को विघटित करते हुए परिसमापन की विधिवत कार्यवाही के लिए अधिनियम की धारा 44(1) के तहत श्री संजय कुमार सिंह, जिला पदाधिकारी, पटना को तत्काल के प्रभाव से परिसमापक नियुक्त किया गया था ;

और चूँकि श्री संजय कुमार सिंह, जिला पदाधिकारी, पटना-सह-परिसमापक, बिहार स्टेट हाउसिंग को-ऑपरेटिव फेडरेशन लि., पटना ने पत्रांक 2258 दिनांक 03.09.2012 द्वारा परिसमापन की कार्यवाही के सुचारु रूप से संचालन हेतु सहायता प्रदान करने के लिए सहायक परिसमापकों की नियुक्ति का अनुरोध किया है ;

अतः सम्यक् विचारोपरान्त बिहार सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1935 की धारा- 44(1) के तहत श्री अनिमेष कुमार, वरीय उप समाहर्ता पटना तथा श्री सत्यनारायण प्रसाद, अनुमंडल अंकेक्षण पदाधिकारी को बिहार स्टेट हाउसिंग को-ऑपरेटिव फेडरेशन लि., पटना (विघटित) का सहायक परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

नियुक्त सहायक परिसमापक, परिसमापन की कार्यवाही में परिसमापक द्वारा आवंटित कार्यों/दायित्वों का निर्वहन करेंगे।

आदेश से,
राजेश कुमार,
निबंधक, सहयोग समितियाँ।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 534-571+10-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>